

PRIMO

CHEMICALS

PCL:SEC:2025:165

18.11.2025

BSE Limited,
1st Floor, New Trading Ring,
Rotunda Building,
P.J. Towers, Dalal Street, Fort,
MUMBAI-400 001.
Scrip Code: 506852

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot no. C/1, G Block,
Bandra- Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051
Scrip Code: PRIMO

Sub.: Newspaper Advertisement – Notice for Special Window for Re-Lodgement of Transfer Requests of Physical Shares.

Dear Sir,

Pursuant to the provisions of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirement) Regulations, 2015, please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisements published today i.e. 18th November, 2025 in Financial Express (English) and Amar Ujala (Hindi) regarding Notice for Special Window for re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of the Company.

The above information is also available on the Company's website i.e. www.primochemicals.in

Thanking you,

Yours faithfully,
For Primo Chemicals Limited

SUGANDHA KUKREJA
Company Secretary & Chief HR Officer

Encl.: As above

PRIMO CHEMICALS LIMITED

REGISTERED & CORPORATE OFFICE : BAY NO. 46-50, SECTOR 31-A, CHANDIGARH- 160030
PHONE : 0172-2801649-650, EMAIL : INFO@PRIMOchemicals.IN CIN: L24119CH1975PLC003607 WEBSITE : WWW.PRIMOchemicals.IN

WORKS : NANGAL-UNA ROAD, NAYA NANGAL-140126 DISTT. ROPAR, PUNJAB, INDIA

PRIMO PRIMO CHEMICALS LIMITED

CHEMICALS LTD.

CIN: L24119CH1975PLC003607

Registered and Corporate Office: Bay No 46-50, Sector 31-A, Chandigarh, 160030, Tel No. 0172-2801649

Email: secretarial@primochemicals.in, Website: www.primochemicals.in

Notice for Special Window for Re-Lodgement of Transfer Requests of Physical Shares of Primo Chemicals Limited

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, Shareholders of Primo Chemicals Limited are hereby informed that a Special Window is opened for a period of six months from July 7, 2025 to January 6, 2026 to facilitate re-lodgement of transfer requests of physical shares of the Company.

Shareholders are to note that this facility is available only for re-lodgement of Transfer Deed(s) which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 for transfer of physical shares and which were Rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/ process or otherwise.

Eligible Shareholders who wish to avail the opportunity may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent i.e. Beetal Financial & Computer Services Private Limited at Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, New Delhi- 110 062.

The Shares that are re-lodged for transfer shall be issued only in demat mode.

For Primo Chemicals Limited

Sd/-

Place: Chandigarh (Sugandha Kukreja)

Dated: 17th November, 2025 Company Secretary & Chief HR Officer

Mahindra FINANCE

MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD.

Registered Office at: Gateway Building, Appollo Bunder, Mumbai- 400 001.

Corporate office at: B Wing, 3rd Floor, Agastya Corporate Park, Piramal Amli Building, Kamani Junction, Kurla West Mumbai- 400 070.

POSSSESSION NOTICE

(For immovable property) Rule 8-(1) of SARFAESI Act & Rules

Whereas, the undersigned being Authorized Officer of Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd. under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, issued a Demand Notice dated 03rd September, 2025 calling upon Mr. Nand Lal Rana (Borrower), Mrs. Ritu Devi (Co – Borrower 1) and Mr. Kushal Pal (Co – Borrower 2) to repay the amount mentioned in the notice being for of Rs.44,36,226.10/- (Rupees Forty-Four Lakh Thirty-Six Thousand Two Hundred Twenty-Six And Ten Paise only) within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said rules on this day of 13th November, 2025.

The Borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property (Secured Asset) mentioned herein and any dealings with the such property will be subject to the charge of Mahindra and Mahindra Financial Services Limited for an amount of Rs.44,36,226.10/- (Rupees Forty-Four Lakh Thirty-Six Thousand Two Hundred Twenty-Six And Ten Paise only) as mentioned herein under with interest thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY

ITEM NO-1 – All that piece and parcel of measuring 2 Bighay 40/4754 share out of total land measuring 237 Bighay 14 Bishway in khewat no./khatouni no.52/78 to 84 as per jamaabandi 2013-14 and mutation no.2054 of village Khelan, H. B. No. 169, Tehsil Darabassi, S.A.S Nagar, Punjab. Bounded as follows: On or towards East by : Side 84', Agriculture Land, On or towards West by : 83'Side, Khelen Road, On or towards North by : Side 208', Shop of Rajeshwar, On or towards South by : Side 223', Rasta.

Sd/-

Date: 18.11.2025 Authorised Signatory

Place: S.A.S Nagar, Punjab. Mahindra and Mahindra Financial Services Ltd

AXIS BANK

Retail Asset Centre: AXIS Bank Ltd, 2nd Floor, Property # 7-E, Municipal 3903/1142/16, Malhar Road, Sarabha Nagar, Ludhiana-141001.

Corporate Office: 'Axis House', Block-B, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai-400025.

Registered Office: 'Trishul', 3rd Floor, Oppsite Samartheshwar Temple, Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006

APPENDIX-IV (REFER RULE – 8(1)) POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPERTY)

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of Axis Bank Ltd. under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued demand notice dated 24-July-2025, calling upon Mr. Akshay Singh S/o Karan Singh, to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 2,458,327/- (Rupees Twenty Four Lakhs Fifty Eight Thousand Three Hundred And Twenty Seven Only) together with further unapplied interest and cost thereon, within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The Borrower(s) (Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) above said having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/ Guarantor(s) and the Public in General that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 13th day of November 2025.

The Borrower(s)/Co-Borrower (s)/ Mortgagor(s)/ Guarantor(s) above said in particular and the Public in General is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of the Axis Bank Ltd., for an amount of Rs. 2,458,327/- (Rupees Twenty Four Lakhs Fifty Eight Thousand Three Hundred And Twenty Seven Only) together with further interest thereon at the contractual rate of interest till the date of payment & expenses thereon.

The Borrower(s)/Co-Borrower(s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s)'s attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTY

All that part and parcel of the Residential Property House no. 224-C Second Floor, measuring 0 Kanal 1.73 Marla (1/3 Share of 155.55) bearing Khewat/Khatoni No. 200/204, 75/79, 344/351, 252/259, 250/257 and 330/337 comprised in Kharsa No. 23/11/11(1-11), 11/21(1-11), 12/21(2-2), 12/2(2-1), 12/3(0-7), 2/2(3-11), 2/11(2-4,5), 9/2(4-0), 10/1(0-12), 10/2(7-8), 12/11(2-8), 24/5(5-15), 27/2(4), 6(8-0), Kitta 14, land measuring 44 Kanal 2.5 Marla share to extent of 52/26475 i.e. 0 Kanal 1.73 Marla situated at Palm City, Sector-127 Village Santamajra, Hadbast No. 184 Tehsil Kharar, Distt. SAS Nagar Mohali, Punjab bounded as under: East: Na, West: Na, North: N, South: Na.

Date : 13.11.2025 Sd/- (Authorized Officer),

Place: Kharar Axis Bank Ltd.

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Act

(Pursuant to Section 374(h) of the Companies Act, 2013 and Rule 4(3) of the Companies (Authorised to Register) Rules, 2014)

1. Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the Expiry of thirty days hereinafter to the Registrar of Companies, Punjab and Chandigarh that Ms MITTAL CERAMICS, a Partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a Company limited by Shares.

2. The Principal Objects of the Company are as follows:-

"To engage in Manufacturing & Trading of all kinds of Steel ingots, Iron & Steel, Manufacturing of Casting Rolls & Alloy Steels and all other allied activities."

3. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the Office at "VILL-KUMBI, ALMOH ROAD, MANDI GOBINDGARH, FATEHGARH SAHIB, PUNJAB - 147801".

4. Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at ROC, Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Manesar, Plot no. 6/7& 8, Sector 5, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Pincode - 122050 within Twenty One days from the date of Publication of this notice, with a copy to the company at its registered Office.

Dated this 18th Day of November, 2025

For Ms MITTAL CERAMICS

Name(s) of Applicant:

1. KARAN GOEL

2. SHIVAM GOEL

pnb

ORIENTAL UNITED

punjab national bank

... the name you can BANK upon!

E-AUCTION NOTICE

Asset Recovery Management Branch, Rohtak-830700, E-mail : cs8307@pnb.bank.in, Mob. 7206512344

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the Symbolic Possession of which has been taken by the Authorized Officer the Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis on the date as mentioned in the table herein below, for recovery of its dues due to the Secured Creditor from the respective borrower (s) and guarantor (s). The reserve price and the earnest money deposit will be as mentioned in the table below against the respective properties.

SCHEDULE OF THE SECURED ASSETS

Name of the Branch Name of the Account Name & addresses of the Borrower/Guarantors Account	Description of the Immovable Properties Mortgaged/Owner's Name (mortgagors of property (ies)	A) Dt. Of Demand Notice u/s 13(2) of SARFESI ACT 2002 B) Outstanding Amount as per Demand Notice C) Possession Date u/s 13(4) of SARFESI ACT 2002 D) Nature of Possession Symbolic/Constructive	A) Reserve Price B) EMD C) Bid Increase Amount	Date/ Time of E-Auction	Details of the encumbrances known to the secured creditors
Branch Office- ARMB Zila Vikas Bhawan, Rohtak, Mobile : 7206512344, E-Mail:- cs8307@pnb.bank.in	Land & Building measuring 355.83 Sq. Yards situated at Bhiwani Road Rohtak covered under 3 Sale Deeds which are detailed below :	A) 16.07.2025 B) Rs.2,48,28,342.84 +further interest and charges C) 18.09.2025 D) Symbolic Possession	A) Rs.280.00 Lakh B) RS.28.00 Lakh C) RS.1,00,000/-	22.12.2025 11am to 4.00 pm	Not known
M/s DAHIYA AUTOMOBILES Sh.Jagbir Singh Smt. Neelam Dahiya (Partners)	1) MC ID 257C530U9 owned by Sh. Jagbir Singh s/o Sh. Mahender Singh SD No. 7338 dated 18.11.2008 (98.00 sq. yards), Boundaries:- North: 21 feet Road, West: 42 feet property of Jaswant etc, South: 21 feet property of Sumitra and vendor, East: 42 feet property of Sumitra. 2) MC ID 257C530U10 owned by Mrs. Neelam w/o Jagbir Singh SD No. 7496 dated 21.11.2008 (166.33 Sq. yards), Boundaries :- North: 10 feet +13 feet-9 inches road, front 10 feet and property of Shivditti, West: 42 feet + 35 feet-10 inches property of Shivditti, South: 27 feet 5½ inches property of Shivditti, East: 88 feet Petrol Pump. 3) MC ID 257C530U10 owned by Mrs. Neelam w/o Jagbir Singh. SD No. 7339 dated 18.11.2008 (91.50 Sq. yards), Boundaries :- North: 27 feet 5½ inches + 7 feet 3 inches property of Sumitra and vendor, West: 55 Feet 01 inches property of vendor and Jaswant, South: 35 feet House of Jora Singh, East: 09 feet 04 inches + 35 Feet 10 inches property of Sumitra and petrol pump.				

TERMS AND CONDITIONS :

The sale shall be subject to the Terms & Conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules 2002 and to the following further conditions:

1) The properties are being sold on 'AS IS WHERE IS', and "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" BASIS

2) The secured asset will not be sold below (the Reserve Price plus one incremental bid amount). The Minimum (First) Bid would be Reserve Price plus one incremental bid amount.

3) The particulars of Secured Assets specified in the Schedule here in above have been stated to the best of the information of the Authorised Officer, but the Authorised Officer shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation.

4) The Sale will be done by the undersigned through e-auction platform provided at the Website <https://baanknet.com> on date and time of auction specified above.

5) For detailed term and conditions of the sale, please refer 1) <https://baanknet.com>, Mob.7206512344, 9466725525

Dated: 15.11.2025 (Baldeep Bidwal)

Place: Rohtak Authorized Officer, Punjab National Bank, Secured Creditor,

STATUTORY SALE NOTICE UNDER RULE 8(6) OF THE SARFAESI ACT, 2002

...continued from previous page.

AN INDICATIVE TIMETABLE IN RESPECT OF THE OFFER IS SET OUT BELOW:	
Submission of Bids (other than Bids from Anchor Investors):	
Bid/Offer Period (except the Bid/Offer Closing Date)	
Submission and Revision in Bids	Only between 10.00 a.m. and 5.00 p.m. IST
Bid/Offer Closing Date	
Submission of electronic applications (online ASBA through 3-in-1 accounts) for RIBs	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST
Submission of electronic application (bank ASBA through online channels like internet banking, mobile banking and syndicate ASBA applications through UPI as a payment mechanism where Bid Amount is up to ₹0.50 million)	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST
Submission of electronic applications (syndicate non-retail, non-individual applications of QIBs and NIBs)	Only between 10.00 a.m. and up to 3.00 p.m. IST
Submission of Physical Applications (Bank ASBA)	Only between 10.00 a.m. and up to 1.00 p.m. IST
Submission of physical applications (syndicate non-retail, non-individual applications where Bid Amount is more than ₹0.50 million)	Only between 10.00 a.m. and up to 12.00 p.m. IST
Modification/Revision/cancelled of Bids	
Upward Revision of Bids by QIBs and Non-Institutional Bidders categories*	Only between 10.00 a.m. and up to 4.00 p.m. IST on Bid/ Offer Closing Date
Upward or downward Revision of Bids or cancellation of Bids by RIBs	Only between 10.00 a.m. and up to 5.00 p.m. IST

* UPI mandate end time shall be 5.00 p.m. on the Bid/ Offer Closing Date

QIBs and Non-Institutional Bidders can neither revise their bids downwards nor cancel/withdraw their bids

On the Bid/ Offer Closing Date, the Bids / revision of bids (only upwards revision for QIBs and NIBs) shall be uploaded until:

(i) 4.00 p.m. IST in case of Bids by QIBs and NIBs, and

(ii) until 5.00 p.m. IST or such extended time as permitted by the Stock Exchanges, in case of Bids by RIBs.

On Bid/Offer Closing Date, extension of time may be granted by Stock Exchanges only for uploading Bids received RIBs, after taking into account the total number of Bids received and as reported by the BRLMs to the Stock Exchanges.

In case of any revision in the Price Band, the Bid/ Offer Period will be extended by at least three additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, may for reasons to be recorded in writing, extend the Bid/ Offer Period for a minimum of one Working Day, subject to the Bid/ Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/ Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a public notice, and also by indicating the change on the respective websites of the BRLMs and at the terminals of the Syndicate Members and by intimation to and by intimation to Self-Certified Syndicate Banks ("SCSBs"), the Designated Intermediaries and the Sponsor Banks, as applicable.

This Offer is being made in terms of Rule 19(2)(b) of the SCRR read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made through the Book Building Process and is in compliance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations wherein in terms of Regulation 32(1) of the SEBI ICDR Regulations, not more than 50% of the Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", and such portion, the "QIB Portion") provided that our Company, in consultation with the BRLMs, may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Anchor Investor Portion") of which at least one-third shall be available for allocation to domestic Mutual Funds, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion. Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds and the remainder of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders (other than Anchor Investors) including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Offer shall be available for allocation to Non-Institutional Bidders out of which (a) one-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹20.00 million and up to ₹1.00 million; and (b) two-third of such portion shall be reserved for applicants with application size of more than ₹1.00 million, provided that the unsubscribed portion in either of such sub-categories may be allocated to applicants in the other sub-category of Non-Institutional Bidders and not less than 35% of the Offer shall be available for allocation to Retail Individual Bidders ("RIBs") in accordance with the SEBI ICDR Regulations ("Retail Portion"), subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further all potential Bidders (except Anchor Investors) are required to mandatorily utilise the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective bank accounts (including UPI ID for UPI Bidders using UPI Mechanism) in which the Bid amount will be blocked by the SCSBs or the Sponsor Banks, as applicable, to participate in the Offer. Anchor Investors are not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Offer through the ASBA process. For details, see "Offer Procedure" on page 493 of the RHP.

Bidders/Applicants should ensure that DP ID, PAN and the Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through UPI Mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form. The DP ID, PAN and Client ID provided in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN, Client ID and UPI ID available (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) in the Depository database, otherwise, the Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidders/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form is active. Bidders/Applicants should note that on the basis of the PAN, DP ID, Client ID and UPI ID (for UPI Bidders bidding through the UPI Mechanism) as provided in the Bid cum Application Form, the Bidder/Applicant may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Offer, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the Depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to the Offer. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Depository Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Participant to ensure accuracy of records. Any delay resulting from failure to update the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS	
<div><div><div><div>ICICI Securities</div></div><div>ICICI Securities Limited</div><div>ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg Prabhadevi</div><div>Mumbai 400 025, Maharashtra, India</div><div>Tel.: +91 22 6807 7100</div><div>E-mail: sudeep_ipo@icicisecurities.com</div><div>Investor Grievance ID: customercare@icicisecurities.com</div><div>Website: www.icicisecurities.com</div><div>Contact Person: Namrata Ravasia / Aboli Pitre</div><div>SEBI Registration No.: INM000011179</div></div></div>	<div><div><div><div>IIFL CAPITAL</div></div><div>IIFL Capital Services Limited (Formerly IIFL Securities Limited)</div><div>24th Floor, One Lodha Place, Senapati Bapat Marg</div><div>Lower Parel (West), Mumbai 400 013 Maharashtra, India</div><div>Tel.: +91 22 4646 4728</div><div>E-mail: sudeep_ipo@iiflcap.com</div><div>Website: www.iiflcapital.com</div><div>Investor Grievance E-mail: ig_ibl@iiflcap.com</div><div>Contact Person: Pawan Jain / Nikita Tayal</div><div>SEBI Registration No.: INM000010940</div></div></div>

AVAILABILITY OF THE RHP: Investors are advised to refer to the RHP and the "Risk Factors" beginning on page 34 of the RHP before applying in the Offer. A copy of the RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and is available on the websites of the BRLMs, ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, IIFL Capital Services Limited (Formerly IIFL Securities Limited) at www.iiflcapital.com and at the website of the Company, SUDEEP PHARMA LIMITED at <https://www.sudeeppharma.com> and the websites of the Stock Exchanges, for BSE at www.bseindia.com and for NSE Limited at www.nseindia.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, the BRLMs and the Registrar to the Offer at: <https://www.sudeeppharma.com>, www.icicisecurities.com, www.iiflcapital.com and www.in.mpmg.mufg.com, respectively.

AVAILABILITY OF BID CUM APPLICATION FORM: Bid cum Application Form can be obtained from the Registered Office of our Company, SUDEEP PHARMA LIMITED: Telephone: +91 265 284 0656/329 1354; BRLMs: ICICI Securities Limited, Tel.: +91 22 6807 7100; IIFL Capital Services Limited (Formerly IIFL Securities Limited), Tel.: +91 22 4646 4728 and Syndicate Members: ICICI Securities Limited ("I-Sec"), Tel.: +91 22 6807 7100 and IIFL Capital Services Limited (Formerly IIFL Securities Limited), Tel.: +91 22 4646 4728 and Registered Brokers, SCSBs, Designated RTA Locations and Designated CDP Locations for participating in the Offer. Bid cum Application Forms will also be available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com and www.nseindia.com and at all the Designated Branches of SCSBs, the list of which is available on the websites of the Stock Exchanges and SEBI.

SUB-SYNDICATE MEMBERS: Anand Rathi Share & Stock Brokers Ltd., Axis Capital Ltd., Century Wealth Management Ltd., Choice Equity Broking Private Limited, DB (International) Stock Brokers Ltd., Eureka Capital & Share Broking Services Ltd., Finwizard Technology private Limited, HDFC Securities Limited, IIFL Capital Services Limited, JM

SUDEEP PHARMA LIMITED is proposing, subject to receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed a red herring prospectus dated November 17, 2025 with the RoC. The RHP is made available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in as well as on the website of the BRLMs i.e., ICICI Securities Limited at www.icicisecurities.com, IIFL Capital Services Limited (Formerly IIFL Securities Limited) at www.iiflcapital.com, the website of the NSE at www.nseindia.com and the website of the BSE at www.bseindia.com and the website of the Company at <https://www.sudeeppharma.com>. Any potential investor should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, please see the section "Risk Factors" beginning on page 34 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP for making any investment decision but should only rely on the information included in the RHP filed by the Company with the RoC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable U.S. state securities laws. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside the United States in "offshore transactions" as defined in and in reliance on Regulation S and the applicable laws of the jurisdictions where such offers and sales are made.

CONCEPT

Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with the notification issued by Central Board of Direct Taxes notification dated February 13, 2020 and read with press releases dated June 25, 2021, September 17, 2021 and March 28, 2023 and any subsequent press releases in this regard.

Contents of the Memorandum of Association of our Company as Regards its Objects: For information on the main objects of our Company, please see "History and Certain Corporate Matters - Main objects of our Company" on page 296 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Offer. For further details, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 533 of the RHP.

Liability of the Members of our Company: Limited by shares.

Amount of Share Capital of our Company and Capital Structure: As on the date of the RHP, the authorised share capital of our Company is ₹120,000,000 divided into 120,000,000 Equity Shares of face value of ₹1 each and ₹30,000,000 divided into 15,000,000 Preference Shares of face value of ₹2 each. The issued, subscribed and paid-up Equity share capital of our Company is ₹111,346,602 divided into 111,346,602 Equity Shares of face value of ₹1 each. For details of the capital structure of the Company, see "Capital Structure" beginning on page 84 of the RHP.

Names of the Initial Signatories to the Memorandum of Association of the Company and the Number of Equity Shares Subscribed by them: The names of the initial signatories of the Memorandum of Association of our Company along with their allotment are: Allotment of 30 equity shares of face value of ₹10 each to Jaysukh Jayantilal Bhayani, Manubhai Jashbhai Amin and Ulvir Jaysukh Bhayani with 10 equity shares each. For details of the share capital history of our Company please see "Capital Structure" beginning on page 84 of the RHP.

Listing: The Equity Shares that will be offered through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Stock Exchanges. Our Company has received "in-principle" approvals from BSE and NSE for the listing of the Equity Shares pursuant to their letters each dated September 10, 2025. For the purposes of the Offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring Prospectus and the Prospectus shall be filed with the RoC in accordance with Sections 26(4) and 32 of the Companies Act, 2013. For details of the material contracts and documents available for inspection from the date of the Red Herring Prospectus until the Bid/ Offer Closing Date, see "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 533 of the RHP.

Disclaimer Clause of Securities and Exchange Board of India ("SEBI"): SEBI only gives its observations on the offer documents and this does not constitute approval of either the Offer or the specified securities stated in the Offer documents. The investors are advised to refer to page 470 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of SEBI.

Disclaimer Clause of BSE: It is to be distinctly understood that the permission given by BSE Limited should not in any way be deemed or construed that the RHP has been cleared or approved by BSE Limited nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the RHP. The investors are advised to refer to the page 472 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of BSE.

Disclaimer Clause of NSE (the Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 473 of the RHP for the full text of the disclaimer clause of NSE.

General Risks: Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and Bidders should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Bidders are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, Bidders must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have neither been recommended, nor approved by SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the Bidders is invited to "Risk Factors" on page 34 of the RHP.

REGISTRAR TO THE OFFER	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
<div><div><div><div>MUFG</div><div>MUFG Intime</div></div><div>MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)</div><div>C-101, Embassy 247, L.B.S. Marg, Vikhroli West</div><div>Mumbai 400 083 Maharashtra, India</div><div>Tel.: +91 81 0811 4949</div><div>E-mail: sudeeppharma ipo@in.mpmg.mufg.com</div><div>Investor Grievance ID: sudeeppharma ipo@in.mpmg.mufg.com</div><div>Website: www.in.mpmg.mufg.com</div><div>Contact Person: Shanti Gopalakrishnan</div><div>SEBI Registration No.: INR000004058</div></div></div>	<div><div><div><div>Dimple Ashwinbhai Mehta</div><div>SUDEEP PHARMA LIMITED</div><div>129/1/A, G.I.D.C. Estate, Nandesari, Vadodara – 391 340 Gujarat, India</div><div>Tel: +91 265 284 0656/329 1354</div><div>E-mail: cs.sudeep@sudeepgroup.com</div><div>Website: https://www.sudeeppharma.com</div></div></div><div>Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer, in case of any pre-Offer or post-Offer related grievances including non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode, etc. For all Offer-related queries and for redressal of complaints, investors may also write to the BRLMs.</div></div>

Financial Services Limited, Jobanputra Fiscal Services Pvt. Ltd., Kotak Securities Limited, LKP Securities Limited, Venture Growth & Securities Ltd., Motilal Oswal Financial Services Limited, Nuvama Wealth and Investment Limited (Edelweiss Broking Limited), Prabhudas Ladhani Pvt Ltd., Pravin Ratilal Share and Stock Brokers Ltd., RR Equity Brokers Private Limited, SBICAP Securities Limited, ShareKhan Limited, SMC Global Securities Limited, Systematrix Shares and Stocks (India) Limited, Trade Bulls Securities (P) Ltd., Way2wealth brokers Pvt Ltd. and Yes Securities (India) Limited.

ESCROW COLLECTION, REFUND AND SPONSOR BANK: Kotak Mahindra Bank Limited.

PUBLIC OFFER ACCOUNT AND SPONSOR BANK: ICICI Bank Limited.

UPI: UPI Bidders can also Bid through UPI Mechanism.

All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For SUDEEP PHARMA LIMITED

On behalf of the Board of Directors

Sd/-

Dimple Ashwinbhai Mehta

Company Secretary and Compliance Officer

Place: Vadodara

Date: November 17, 2025

epaper.financialexpress.com

Chandigarh

जब घुटना, कंधा या कमर दर्द सताए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही अपनाएं

‘डा. ऑर्थो स्ट्रांग तेल’ आज ही ले आएं



घुटना दर्द कंधा दर्द कमर दर्द कलाई दर्द

24x7 Helpline: 7876977777 • www.drorthoall.com

अब दर्द भी घुटने टेकेगा...

10 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों व सत्वों के योग से निर्मित डा. ऑर्थो स्ट्रांग तेल जोड़ों के अंदर तक समाकर दर्द को कम करने में विशेष सहायता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक वा दो बार हल्के हाथों से पीड़ित अंग पर मालिश करें। आयुर्वेदिक होने के कारण इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं लम्बे समय तक बना रहता है।

डा. ऑर्थो
Ayurvedic Oil, Capsules, Spray & Ointment

Clinically Tested

पीआरटीसी व रोडवेज के ठेका मुलाजिमों ने की हड़ताल, बाद में स्थगित

पंजाब सरकार ने किमी स्कीम का टेंडर निकालने की तारीख आगे बढ़ाई, तब मानी यूनियन

अमर उजाला ब्यूरो

पटियाला/चंडीगढ़। पंजाब में पीआरटीसी व रोडवेज के ठेका मुलाजिमों ने सोमवार को हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। बाद में यह हड़ताल स्थगित कर दी गई।

पंजाब रोडवेज, पब्लिक पीआरटीसी कॉन्स्ट्रक्शन व यूनिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों ने सोमवार को हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। बाद में यह हड़ताल स्थगित कर दी गई।

का चक्का जाम करके हड़ताल पर जाने का एलान किया था। पीआरटीसी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों ने सोमवार को हड़ताल कर चक्का जाम कर दिया। बाद में यह हड़ताल स्थगित कर दी गई।

मुलाजिमों की हड़ताल के आख्यान को देख सरकार ने टेंडर की तारीख आगे बढ़ा दी। इससे पहले भी सरकार ने टेंडर की तारीख आगे बढ़ा चुकी है।



चंडीगढ़ में हड़ताल के दौरान पब्लिक और पीआरटीसी के कर्मचारी। सत्य

संरक्षित पशुओं से भरा कैटर पकड़ा, चालक को किया गिरफ्तार

कोलार साहिब। मौजूदा टोल प्लाजा के पास गो रक्षा दल के लिफ्ट प्रभान निबन्धन कुमार ने अपनी टीम के साथ पशु तस्करी रोकट बंदीकरण किया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप सिंह के अनुसार, उन्हें सूचना मिली थी कि एक कैटर में पशु तस्करी की जा रही है। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो गो रक्षा दल ने वाहन को चेर लिया। कैटर को जप्त करवाया गया। मुहम्मद इमाम चला रहा था। उसे काबू कर लिया गया, जबकि कैटरवाला भी के धाम निकला। पुलिस ने प्रार्थना की दर्त कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

सरकारी संपत्तियों को बेचना चाहती है मान सरकार: सुखबीर

श्री खड्डू साहिब/तननाम। शिअर अख्तर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आम अदमी पार्टी प्रचार कर रही है कि उपचुनाव में भीमटरी के माध्यम से शिअर का वोट बैंक बसा कर्यक सिपाई यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है।

उदीपचौरों व बिलहरी को भूमिआकर करेडों रुपये बसुले जा रहे हैं। मेरे पास व्यापारियों के करों 100 एफिडेन्सिट हैं जो अप सरकार को

सुखबीर बनने ही हिसाब लेंगे

सुखबीर ने कहा कि सरकार बनने की खातिर एसी रिपुब्लन सिंह, मोअदर खाक प्रभारी प्रजाति सिंह, भाग सिटी प्रभारी हरीश्वर गुरजन सिंह से पूरा विवाद लिख जाएगा। जिसमें किताब खनित कीर केवल ने बली एयरगैस विमोचनो नही निशान बलिक आप को जिब प्रभान के ली पर सेवर् दो है। जिसका खसियाज ठके चुवान अखीय के माध्यम से चुपना पडा।

सुखबीर के खिलाफ आज से सिपाई जंग का आगाज कर दिया गया है। मान जानने हैं अप सरकार को एक बर्ष बचा है इसलिये वह पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं।

श्रीखंडू साहिब/तननाम। शिअर अख्तर सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि आम अदमी पार्टी प्रचार कर रही है कि उपचुनाव में भीमटरी के माध्यम से शिअर का वोट बैंक बसा कर्यक सिपाई यह है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है।

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अथवा उत्सवार्थ शुरू करवाले के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सबू 9 बजे से रात 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

अमर उजाला

यदि आपको अमर उजाला की प्रति नियमित या समय से नहीं मिल रही है तो कृपया टोल फ्री नंबर या ई-मेल के माध्यम से हमें बताएं। हम शीघ्र ही उसे समय से पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

अथवा उत्सवार्थ शुरू करवाले के लिए संपर्क करें

1800 121 1166
सबू 9 बजे से रात 6 बजे तक

circulation@amarujala.com

धरम हेत साका जिनि कीआ ॥ सीसु दीआ परु सिरु न दीआ ॥



हरियाणा सरकार

बलिदान, शांति और मानवता के प्रतीक

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350^{वें} शहीदी वर्ष को समर्पित

शहीदी यात्रा

“ मैं श्री गुरु तेग बहादुर जी को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके साहस और सिद्धांतों के साथ-साथ आदर्शों के प्रति उनकी अद्वैत प्रतिबद्धता के लिए पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा की जाती है। उन्होंने अत्याचार और अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शिक्षाएँ हमें आज भी प्रेरित करती हैं।”

- नरेन्द्र मोदी

PRIMO ग्राइमो केमिकल्स लिमिटेड

(CIN: L24119CH1975PLC003607)

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: बंगला नंबर 46-50, सड़क 31-ए, चंडीगढ़, 160030 दूरभाष नम्बर 0172-2801649

ईमेल: secretarial@primochemicals.in, वेबसाइट: www.primochemicals.in

प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के भौतिक शैथरों के इस्तेमाल पर अनुरोधों के पुनः दाखिल करने हेतु विशेष विज्ञापन की सूचना

मेरी जीवर संख्या SEBI/HO/MRSD/MRSD-PoD/PDIR/2023/57 दिनांक 2 अक्टूबर, 2023 से अमर उजाला लिमिटेड के वेबसाइट पर सूचना जारी है कि कंपनी के भौतिक शैथरों के इस्तेमाल पर अनुरोधों की पुनः दाखिल करने की सूचना जारी है।

संस्थापक प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के भौतिक शैथरों की पुनः दाखिल करने के लिए प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के वेबसाइट पर 1 अक्टूबर, 2023 को सूचना जारी की गई थी।

प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के भौतिक शैथरों की पुनः दाखिल करने के लिए प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के वेबसाइट पर 1 अक्टूबर, 2023 को सूचना जारी की गई थी।

प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के भौतिक शैथरों की पुनः दाखिल करने के लिए प्रामुखी केमिकल्स लिमिटेड के वेबसाइट पर 1 अक्टूबर, 2023 को सूचना जारी की गई थी।

श्री नायब सिंह सैनी

मुख्यमंत्री, हरियाणा

18 नवम्बर, 2025 | प्रातः 11 बजे | गुरुद्वारा बन्दा सिंह बहादुर, सहैौरा, यमुनानगर

सूचना, लोक संपर्क तथा भाषा विभाग, हरियाणा

www.prharyana.gov.in | Follow us on Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, and WhatsApp

जब घुटना, कंधा या कमर दर्द सताए तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही अपनाएं 'डा. ऑर्थो स्ट्रांग तेल' आज ही ले आएं



घुटना दर्द

कंधा दर्द

कमर दर्द


कलाई दर्द

अब दर्द भी घुटने टेकेगा...

10 गुणकारी आयुर्वेदिक तेलों व सत्वों के योग से निर्मित डा. ऑर्थो स्ट्रांग तेल जोड़ों के अंदर तक समाकर दर्द को दूर करने में विशेष सक्षमता करता है। मात्र 8-10ml तेल दिन में सिर्फ एक या दो बार हल्के हाथों से पीठित अंग पर मसिज लें। आयुर्वेदिक होने के कारण इसका प्रभाव अल्पकालिक नहीं लम्बे समय तक बना रहता है।



24x7 Helpline: 7876877777 • www.drorthocool.com



न्यूज़ डायरी

स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों का शैक्षणिक दौरा



स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, भादोस के विद्यार्थी एवं शिक्षक। भादोस जिले के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान के छात्रों का शैक्षणिक दौरा। छात्रों ने फलों, सब्जियों, पशुधन, वन्यजीव आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की।

वेतनरी यूनि. ने ग्रीन पॉकेट्स के साथ किया एमआरयू लुधियाना। गुरु अंगद देव वेतनरी ऐंड एनिमल साइंसेस यूनिवर्सिटी, लुधियाना ने पंचायत समिति के साथ, वेतनरी एम. जे. वेतनरी गॉर्ग और वेतनरी गॉर्ग के साथ एक एमआरयू समझौता जमान (एमआरयू) पर हस्ताक्षर किए।

मोगा के स्कूल में अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया

मोगा। लाल की प्रमुख शिक्षण संस्था व लॉस फोल्ड ए लुधियाना स्कूल (टीएनएसएल) में वेतनरी एम. जे. वेतनरी एम. जे. वेतनरी गॉर्ग और वेतनरी गॉर्ग के साथ एक एमआरयू समझौता जमान (एमआरयू) पर हस्ताक्षर किए।

ड्यू मुक्त बनाने के लिए जांव और जगुरुकता अभियान

लुधियाना। ड्यू रोग से बचाव के लिए जिले भर में जांव बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्यू रोग को रोकने के लिए जांव बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ड्यू रोग को रोकने के लिए जांव बनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राहीवी दिवस पर बच्चों ने दिया नारा छोड़ो का संदेश

लुधियाना। नारा करीबन कार्यालय के सामने आयोजित नाटक में बच्चों ने समाज में फैल रहे नरों के दुष्प्रभावों को वास्तविक रूप में दर्शाया और बच्चापन के लिए स्वस्थ-सुख-कलिंग के युवा नरों को प्रोत्साहित किया।

पठानकोट की अध्यापिका राजीव कंडा फिलैंट्रॉप रवाना

पठानकोट। शिक्षण पठानकोट के सरकारी एलमेंट्री स्कूल नलगा नलगा नलगा के अध्यापिका राजीव कंडा को पठानकोट के अलग-अलग विद्यालयों में सौंपा गया है।

प्रदेश सरकारों के प्रति सरकार का तानाशाही रवैया

लुधियाना। भारतीय किसान यूनियन लुधियाना के प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकारों के प्रति सरकार का तानाशाही रवैया है।

एलसी कार्यालय बचाओ मोर्चा ने डीसी को ज्ञापन सौंपा

गुरुदासपुर। जिला न्यायाधीश को और से डीसी कार्यालय में सरकारी कार्यालय को मोर्चा संस्था के ज्ञापन सौंपा।

साप्ताहिक प्रयासों में बाबा श्याम के भजनों पर समूह श्रद्धालु

लुधियाना। चंडीगढ़ रोड कोडोडा चौक के समीप स्थित बाबा श्याम मठ में साप्ताहिक आराधना के कार्यक्रम का आयोजन हर रविवार किया जाता है।

350वीं राहीवी वर्षगांठ को समर्पित भव्य नगर कालिदास

लुधियाना। लुधियाना की 350वीं राहीवी वर्षगांठ को समर्पित भव्य नगर कालिदास का आयोजन किया जा रहा है।

कार्यालय प्रधानाचार्य जगजाल लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज

न्यूज डायरी। प्रधानाचार्य जगजाल लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अमृतसर।

डू-बोली सूचना सूचना 11 (A&B)

Table with 2 columns: S.No. and Details. Contains various notices and advertisements.

इंटर जोनल यूथ फेस्ट का शानदार आगाज

संवाद न्यूज़ एजेंसी

राजपुर। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय, कैंडिडा का 10वां इंटर-जोनल यूथ फेस्ट आज आरंभ हुआ।



अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते छात्र।

सहभागिता और प्रतिभा को देखकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। उम्मीद है कि सभी को स्पर्धा के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

देश भगत यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की स्पोर्ट्स मीट में छात्र विद्यार्थी

संवाद न्यूज़ एजेंसी

मंडी गोबिंदगढ़। देश भगत यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी की ओर से स्पोर्ट्स मीट 2025 का आयोजन किया गया जिसमें सभी स्पोर्ट्स के छात्रों ने भाग लिया।



श्रीवीरु में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित करते हुए फाइनल में जीता।

तीसरी जिला ताहवांडा चैंपियनशिप 21 को, विजेता लेंगे स्टेट में हिस्सा

अमृतसर। जिला ताहवांडा चैंपियनशिप का फाइनल टूर्नामेंट 21 दिसंबर को शुरू होगा।

विरासत और इतिहास नहीं शोरो-शायरी बन रही युवाओं की पुस्तकों में पसंद



खालसा कॉलेज पुस्तक मेले में पुस्तकें स्टूडेंट्स।

संवाद न्यूज़ एजेंसी

अमृतसर। खालसा कॉलेज में 10वां अमृतसर साहित्य एवं पुस्तक मेले में आज के युवाओं की पसंद शोरो-शायरी की पुस्तकों की प्रदर्शनी थी।

इस दौरान प्रमुख विभाग पंजाब के सर्वोच्च शिक्षण एवं पुस्तक मंत्रालय के अध्यक्ष डॉ. राजीव सिंह ने भी भाग लिया।

एकता मार्च का सफल आयोजन

लुधियाना। गांधी भारत लुधियाना द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित एकता मार्च सफल रूप से सम्पन्न हुआ।

Table with 2 columns: S.No. and Details. Contains various notices and advertisements.

भारतीय कपास निगम लिमिटेड : बरिंडा

पंजाब के कपास किसानों से अपील

कपास किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीय कपास निगम (CCI) ने गुजरात समर्थन मूल्य संरक्षण के अंतर्गत अपनी वृहत्त का विस्तार किया है।

रिमट यूनिवर्सिटी : दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं तकनीकी मेला कारावां का आयोजन



समारोह में विभिन्न प्रतिभागिता में हिस्सा लेती छात्राएं।

मंडी गोबिंदगढ़। रिमट यूनिवर्सिटी दो दिवसीय सांस्कृतिक एवं तकनीकी मेला कारावां 2025 का आयोजन करेगी।

पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का 97वां बलिदान दिवस मनाया

संवाद न्यूज़ एजेंसी

मोगा। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी का 97वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है।



पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी का 97वां बलिदान दिवस मनाया जा रहा है।

Table with 2 columns: S.No. and Details. Contains various notices and advertisements.

कार्यालय सूची अज्ञात सूचि 'फत सूची' का

Table with 2 columns: S.No. and Details. Contains various notices and advertisements.